

06.11.2023

The Manager

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai – 400 051

Dear Sir/ Ma'am,

Subject: Submission of newspaper publication of Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023

Symbol: JASH

In compliance with the provisions of Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copy of newspaper publication of the Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 published on 5th November, 2023 in newspapers viz. Financial Express_Mumbai Edition (in English) and Choutha Sansar (in Hindi).

You are kindly requested to take on record the above said information.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Jash Engineering Limited

Tushar Kharpade

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

CENTRAL RAILWAY
OPEN E-TENDER NOTICE

Name of work: Repair and Rehabilitation of Quarters at DR, MTN, CLA, VHM, THK, KYN, ABH, ISF locations. Tender Notice No. 73/2023 (BB.WJGP.2022.04.0-4) Approximate cost of the work Value : ₹ 2,14,20,949.00; Bid Security: ₹ 2,57,100/-; Validity: 06 Days; Completion period: 06 Months (C). Instruction: 1) Tender documents and time of award shall be issued upto 13.00 hrs. of 04.12.2023 and will be opened after 12.00 hrs. 2) The prospective bidders are requested to visit the website www.reps.gov.in for details of tenders & corrigendum, if any. 3) Tenderer may participate in above e-tender electronically through website www.reps.gov.in only & submission of manual offers against e-tender are not allowed. Manually, if submitted shall neither be opened nor considered. 4) For further enquiry may contact: Senior Divisional Electrical Engineer (General Services), Annex building, 1st floor, Central Railway, Mumbai CSMT & This tender complies with Public Procurement Policy, Order 2017, dated 15.06.2017. Open E-Tender Notice No. 73/2023 of 02.12.2023. (64)

For Advertising in TENDER PAGES
Contact **JITENDRA PATIL**
Mobile No.: 9029012015
Landline No.: 67440215

Download us APP FOR TICKET

WESTERN RAILWAY
IMPROVEMENT IN LIGHTING OF HERITAGE STRUCTURE

SPEE-DEPCT invites Tender Notice No. : E. 1/2/2023/WA/1/81 at 02/11/2023. Work and location: Churchgate (GLO building) - Improvement in lighting of heritage structure. Approx. cost of work: Rs. 1,72,01,556.00. Cost of Bid Security: Rs. 2,14,209. Date & Time of Submission: 02/11/2023, 15.00 hrs. Date & Time of opening: 02/11/2023 at 15.30 hrs. NOTE: Please visit our website www.wrps.gov.in to download the tender document, corrigendum and further details. [Like us on: Facebook/WesternRailway](https://www.facebook.com/WesternRailway)

WEST CENTRAL RAILWAY
Commercial Department Jabalpur Division

No. JB/CIP/17/0E-Auction/Mod323 Date: 31.10.2023

The bids are invited from registered entities on IREPS by Sr. DCM/JSP (ACO) through e-Auction for the commercial/NFR contracts of Earning & Leasing of SLRs. The Catalogues have already been published on IREPS website www.ireps.gov.in. The details of upcoming e-Auction of Jabalpur division are as under:- Category: Parcel Leasing, Catalogue No. - JB/C-Parcel-31. Asset Details - Leasing of SLR compartment of train no. 12189, 12285, 12286, 05705, 11651, 10248, 11754, 22026, 11703, 11756, 22190, 22192, 12188, 20827, 22174, 12427, 05703, 22188, 22162, 12062, 20806, 11464, 11705, 22188, 11708, 12182, 12181, 22181, 11751 Leasing of VPU in train No. 12187-12188 & 11447-11448. Auction Start - 17.11.2023 10:00hrs., Auction End - 17.11.2023 18:20 hrs., 1. Bidder are advised to visit website www.ireps.gov.in for more information related to above e-Auction. 2. The bid has been invited through e-Auction Leasing module of IREPS website. 3. All the e-Auction related information as eligibility, scope of work, contract period, terms & conditions of contract etc. are available on IREPS. 4. Bidders can participate in e-Auction only as per the date & timing as indicated in IREPS. 5. All the prospective bidders are requested to visit website www.ireps.gov.in regularly for any corrigendum related to above e-Auction. DRM (C) WCR, Jabalpur

BAYER CROSCIENCE LIMITED
CIN: L24210MH1958PLC011173

Regd. Office: Bayer House, Central Avenue, International Estate, Thane (West) - 400 607.
Website: www.bayer.in; Email: ir_bayer@bayer.com
Tel. No.: 022-2531 1234; Fax No.: 022-2545 5063

Notice – Declaration of Interim Dividend & Intimation of Record Date

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Board of Directors ("Board") of Bayer CropScience Limited ("Company") at its Board Meeting held on Friday, November 03, 2023, have declared an Interim Dividend of Rs. 105/- per share to the equity shareholders of the Company.

FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Board has fixed the Record Date as Thursday, November 16, 2023, for the purpose of payment of Interim Dividend on the equity shares of the Company for the Financial Year 2023-24. The Interim Dividend will be paid on Thursday, November 30, 2023 to those Members whose names appear on the Company's Register of Members as holders of Equity Shares as on the Record date i.e. Thursday, November 16, 2023 and in respect of shares held in dematerialised form, to the Beneficial Owners of the equity shares as at the close of business hours on the same date as per the details furnished by the Depositories for the purpose.

The Shareholders may note that the Interim Dividend will be paid electronically to those shareholders who have updated their bank account details. If shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent out to their registered addresses. To avoid delay in receiving the dividend, shareholders are requested to update their bank details with their DPs. For Members holding shares in physical mode, SEBI vide its Circular dated November 03, 2021, has mandated registration of PAN, KYC details and Nomination. Therefore, Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN, KYC details including bank details and nomination details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, TSR Consultants Private Limited ("TCPL") through Form ISR - 1 and other applicable forms. The Investor Service Request forms are available at www.bayer.in in case of holdings in physical form.

Shareholders may note that pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to shareholders at the prescribed rates (applicable surcharge and cess) as may be notified from time to time. The information regarding the applicability of TDS rate for various categories of shareholders and documentation required, is available under the Investor Section at www.bayer.in. The Shareholders are requested to send all the necessary documents complete in all respect through email at dividend.india@bayer.com on or before Thursday, November 16, 2023 to enable the Company to deduct the correct TDS on the dividend payment.

For Bayer CropScience Limited
Sd/-
Nikunj Kumar Sawalya
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Thane
Date : November 04, 2023

UNION QUALITY PLASTICS LIMITED
CIN No. L26200MH1984PLC003555

Registered Office: 209A, Shyam Kamal B. CHS Ltd, Agarwal Market, Tapar Road, Via Pans East, Mumbai, Maharashtra - 400057
E-mail: cs@uqpl.com (Ph: 022-30100378)

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 14/11/2023 at Hyderabad to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30/09/2023 and other matters. Notice is also available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

For Union Quality Plastics Limited
Sd/-
Kavitha Devi
Company Secretary cum Compliance Officer

Place : Hyderabad
Date : 04/11/2023

Zenith Fibres Limited
311, Marol Bhuvan, 3rd Floor, Marol Co-Op. Ind. Estate Ltd., M.M. Road, L.B. Nagar Post, Andheri (E), Mumbai-400 059.
Tel. : 022-40153860 / E-Mail: mumbai@zenithfibres.com; CIN : L40100MH1989PLC01580

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023
(Rs. in Lakhs)

S.No.	Particulars	30.09.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Total Income from Operations	1,223.36	611.75	1,574.52	1,795.11	3,092.73	5,279.49
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	128.25	(43.10)	212.49	85.75	338.11	382.36
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	128.25	(43.10)	212.49	85.75	338.11	382.36
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	94.71	(32.15)	159.81	62.57	253.39	283.82
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income)	94.71	(32.15)	159.81	62.57	253.39	280.01
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	394.41	394.41	394.41	394.41	394.41	394.41
7	Earnings per equity share (of Rs. 10/- each)	2.40	(0.82)	4.05	1.59	6.42	7.20
	(a) Basic (Rs.)	2.40	(0.82)	4.05	1.59	6.42	7.20
	(b) Diluted (Rs.)	2.40	(0.82)	4.05	1.59	6.42	7.20

NOTES:

The above is an Extract of the detailed format of results for quarter and year ended on 31.09.2023 filed with the stock exchange under Regulation - 33 of the SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and approved by Board on 4th November, 2023. The format of the standalone quarterly results are available on the website of the stock exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.zenithfibres.com)
Date: 04.11.2023 By Order of the Board of Directors
Place : Vadodra Sanjeev Rungta (Executive Chairman) DIN: 00053602

JASH ENGINEERING LIMITED
CIN: L28910MP1973PLC001226
Registered Address: 31, Sector-6, Sarovar Road, Industrial Area, Indore 462015, Madhya Pradesh, India
Phone: 0731-6727201, Email: info@jashindia.com, Website: www.jashindia.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023
(Rs. in Lakhs Except for EPS)

S.N.	Particulars	30 Sep 2023 Unaudited	30 June 2023 Unaudited	30 Sep 2023 Unaudited	30 Sep 2023 Unaudited	30 Sep 2023 Unaudited	31 Mar 2023 Audited
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Total Income from operations	7270.00	4372.58	8085.51	11590.58	19331.63	18892.32
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax	833.82	325.95	1674.06	1157.72	1933.90	4257.80
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	775.74	239.85	1625.52	1055.77	1815.76	4001.02
4	Total Comprehensive Income for the period	732.63	224.97	1606.07	957.50	1834.06	4021.11
5	Prepaid Equity Share Capital (Face value per share Rs. 10/- each)	1202.99	1202.99	1194.13	1202.99	1194.13	1202.99
6	Earnings per share	6.45	1.99	13.61	6.44	15.30	34.15
	(a) Basic (not annualised)	6.45	1.99	13.61	6.44	15.30	34.15
	(b) Diluted (not annualised)	6.35	1.95	13.41	6.27	15.26	33.61

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023
(Rs. in Lakhs Except for EPS)

S.N.	Particulars	30 Sep 2023 Unaudited	30 June 2023 Unaudited	30 Sep 2023 Unaudited	30 Sep 2023 Unaudited	30 Sep 2023 Unaudited	31 Mar 2023 Audited
		2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	Total Income from operations	9551.99	6454.50	7457.08	16197.48	12310.00	41526.77
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax	997.66	(280.81)	671.15	617.05	271.86	3549.38
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	654.33	(234.80)	564.24	517.32	150.36	3712.12
4	Total Comprehensive Income for the period	882.53	(261.11)	558.61	522.43	236.19	3582.61
5	Prepaid Equity Share Capital (Face value per share Rs. 10/- each)	1202.99	1202.99	1194.13	1202.99	1194.13	1202.99
6	Earnings per share	7.10	(2.80)	4.73	4.30	1.36	43.27
	(a) Basic (not annualised)	7.03	(2.80)	4.68	4.24	1.32	42.58
	(b) Diluted (not annualised)	7.03	(2.80)	4.68	4.24	1.32	42.58

NOTES:

1. The above unaudited standalone and consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by Board of Directors at their meeting held on 03/10/2023.

2. The above unaudited standalone and consolidated financial results are an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 23 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly and Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.sebiindia.com. The same is also available on the Company's website viz. www.jashindia.com.

For JASH Engineering Limited
Sd/-
Pratik Patel
Chairman & Managing Director
DIN - 08789923

Place: Indore
Date: 03/11/2023

Procter & Gamble Health Limited
(CIN: L99998MH1987PLC037376)

Registered Office: P&G Plaza, Cardinal Graciele Road, Chakala, Andheri (E), Mumbai - 400 089
Website: www.pgshlindia.com; Email ID: investor@pgshlindia.com
Tel: (81-22) 6865 8000 / Fax: (81-22) 2518 6828 Investor helpline no.: 8291802520

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Fifty-Sixth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Thursday, November 30, 2023, at 03.30 p.m., through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 01, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 20/2022 dated May 05, 2022 and the latest being 09/2023 dated September 25, 2023, and Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/82 dated May 13, 2022, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "the Circular") without the physical presence of members, at a common venue, to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

The Notice along with Annual Report will be sent electronically to those Members who have registered their e-mail addresses. The electronic dispatch of Annual Report to Members will be completed by November 07, 2023. The copy of the Notice along with the Annual Report will also be available on the Company's website: www.pgshlindia.com as well as on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Instructions for joining the AGM through VC/OAVM are provided in the notice convening the AGM. Participation of members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the Companies Act, 2013.

All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM, i.e. November 30, 2023. Members seeking to inspect such documents can send an email to investor@pgshlindia.com.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed there under, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, November 24, 2023, to Thursday, November 30, 2023 (both days inclusive), for the purpose of determining the names of Members eligible for final dividend on Equity Shares, if declared at the 56th AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed there under and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. The remote e-voting period commences on Saturday, November 25, 2023 at 8:00 A.M. and ends on Wednesday, November 29, 2023 at 5:00 P.M. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on Thursday, November 23, 2023, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he shall not be allowed to change it subsequently. The Company has appointed Mr. Nrupam S. Divsani and in his absence Mr. Vihavest G. Shagat, Chakala & Associates LLP, Practising Company Secretaries, to act as the Scrutinizer, for conducting the scrutiny of the votes cast.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Thursday, November 23, 2023, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM and voting thereat. Instructions and procedure for e-voting are set out in the notice of the AGM. Those who have not registered their e-mail addresses, for e-voting may follow the instructions mentioned below:

- In case shares are held in physical form please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to enwardr@kfinlch.com and investorgrievance.in@pg.com.
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, claim master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to evoting@nsl.co.in.

In case of any queries, on e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsl.co.in or call on 022 - 4886 7000 & 022 - 2499 7000 or send a request to evoting@nsl.co.in.

Members are requested to register / update bank details to enable electronic mode of transfer for dividends and in this regard:

- Members holding shares in electronic form are requested to furnish their bank details to their Depository Participants ("DPs").
- Members holding shares in physical form are requested to furnish their bank details, along with a photocopy of a blank cancelled cheque pertaining to their bank account to the Registrar and Share Transfer Agent, ("RTA"), KFin Technologies Limited.

For instructions on joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during the AGM, members are requested to refer to the Notice of the AGM.

Further, Shareholders may note that, in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("the Act") as amended by and read with the provisions of the Indian Finance Act, 2020, dividend declared and paid by the Company after April 1, 2020, is taxable in the hands of the shareholders at the applicable rates. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, shareholders are requested to submit the requisite documents as mentioned in our letter, which is up on the website at www.pgshlindia.com/investors, in order to facilitate us to determine the TDS at time of final dividend. The said documents (duly completed and signed) were required to be uploaded on the RTA's website www.kfinlch.com on or before October 30, 2023. For any clarification, please write to us at enwardr@kfinlch.com or investorgrievance.in@pg.com.

Shareholders who would like to express their views/has questions, may register themselves as a speaker by sending their request in advance mentioning their name, demat account number folio number, e-mail id, mobile number at investorgrievance.in@pg.com from the date of this notice up to November 27, 2023 (5:00 p.m. IST). Those members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their view/questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers and questions depending on the availability of time for the AGM.

By Order of the Board
Sd/-
Zee Rupani
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: November 04, 2023

THE BUSINESS DAILY

FINANCIAL EXPRESS

FOR BUSINESS

financialexpress.com

